

समाचार वाणी

खबर जो करें असर !

नाशिक | Tuesday, 18 August 2026

भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में जबरदस्त बढ़ोतरी, पाकिस्तान से 60 गुना अधिक है भारत का फॉरेक्स रिजर्व ।

Publisher

Published on 31 May 2025



23 मई को समाप्त सप्ताह में भारत का फॉरेक्स भंडार 6.99 अरब डॉलर बढ़कर 692.721 अरब डॉलर पर पहुंचा, वहीं पाकिस्तान का भंडार मात्र 11.516 अरब डॉलर ।

नई दिल्ली, 31 मई 2025: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक, 23 मई 2025 को समाप्त सप्ताह के दौरान भारत के विदेशी मुद्रा भंडार (Forex Reserve) में 6.992 अरब डॉलर की बढ़ोतरी दर्ज की गई है । इस वृद्धि के साथ देश का कुल फॉरेक्स रिजर्व 692.721 अरब डॉलर पर पहुंच गया है । यह तेजी भारत की आर्थिक स्थिरता और वैश्विक बाजारों में बढ़ती साख का संकेत देती है ।

गोल्ड रिजर्व और विदेशी परिसंपत्तियों में भी उछाल

RBI के मुताबिक, इस दौरान गोल्ड रिजर्व 2.366 अरब डॉलर बढ़कर 83.582 अरब डॉलर हो गया । वहीं, विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियां 4.516 अरब डॉलर की बढ़त के साथ 586.167 अरब डॉलर हो गईं । विशेष आहरण अधिकार (SDR) भी 81 मिलियन डॉलर की वृद्धि के साथ 18.571 अरब डॉलर पर पहुंच गए हैं । IMF के पास भारत की आरक्षित स्थिति 30 मिलियन डॉलर बढ़कर 4.401 अरब डॉलर हो गई है ।

पाकिस्तान के पास कितना विदेशी मुद्रा भंडार ?

दूसरी ओर, पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था के हालात कुछ और ही कहानी बयां कर रहे हैं । स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के अनुसार,

23 मई को समाप्त सप्ताह में पाकिस्तान का कुल विदेशी मुद्रा भंडार 70 मिलियन डॉलर की बढ़ोतरी के साथ सिर्फ 11.516 अरब डॉलर तक पहुंच पाया है। वहीं पाकिस्तान का **लिविड फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व 16.637 अरब डॉलर** रहा। इसमें **कमर्शियल बैंकों की नेट होल्डिंग्स 5.121 अरब डॉलर** रही, जो पिछले सप्ताह की तुलना में 82 मिलियन डॉलर कम है।

भारत बनाम पाकिस्तान : फॉरेक्स में विशाल अंतर

इस तुलना से स्पष्ट है कि भारत का **फॉरेक्स रिजर्व पाकिस्तान से लगभग 60 गुना अधिक** है। यह भारत की मजबूत आर्थिक नीति, बढ़ते निर्यात, विदेशी निवेश और स्थिर वित्तीय प्रणाली को दर्शाता है।

ऐसी ही देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए फॉलो करें: www.samacharwani.com

DISCLAIMER: the views/contents expressed/presented herein, within this advertorial and promotional feature are the sole and exclusive responsibility of individual clients/expert/their authorised representative/Publisher, to which effect, publication house/its representative/affiliates are not responsible/liable whatsoever.